



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 235]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 4, 1977/भाषा 13, 1899

No. 235]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 4, 1977/ASADHA 13, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

DEPARTMENT OF REVENUE AND BANKING

NOTIFICATIONS

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 4th July 1977

G.S.R 475(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India Department of Revenue and Banking, No 116/77-Central Excises, dated the 18th June, 1977, namely:—

For the words "in any process of such manufacture;" the words "in any process of such manufacture, or if power is so used in any factory, it does not exceed one horse power for carbonation of water and half horse power for washing of bottles:" shall be substituted.

[No. 210/77]

राजस्व और बैंकिंग विभाग

अधिसूचनाएँ

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

नई दिल्ली, 4 जुलाई, 1977

सा० का० नि० 475 (अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के राजस्व और बैंकिंग विभाग की अधिसूचना सं० 116/77- केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 18 जून, 1977 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्—

“विनिर्माण की किसी प्रक्रिया में पावर का उपयोग नहीं किया जाता” शब्दों के अर्थ पर “विनिर्माण की किसी प्रक्रिया में पावर का उपयोग नहीं किया जाता, अथवा यदि किसी कारखाने में पावर का उपयोग किया जाता है तो वहाँ जल के कार्बनीकरण के लिए एक हार्स पावर से अधिक नहीं है तथा बोतलों की धुलाई के लिए आधी हार्स पावर से अधिक नहीं है” शब्द रखे जाएंगे।

[[सं० 210/77]

G.S.R. 476(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts aerated waters not containing extracts of Cola (Kola) nuts, and falling under sub-item (2) of Item No. 1D of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from so much of the duty of excise leviable thereon as is in excess of twenty-five per cent. *ad valorem*:

Provided that the exemption contained in this notification shall apply only to the first clearances for home consumption not exceeding fifty lakh bottles, by or on behalf of a manufacturer from one or more factories during any financial year subsequent to 1977-78, and for such clearances not exceeding thirty-seven lakh bottles during the period commencing on the 4th day of July, 1977 and ending on the 31st day of March, 1978.

[No. 211/77]

R. K. CHANDRA, Under Secy

सा० का० नि० 476 (अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद संख्या 1 घ की उपमद (2) के अन्तर्गत सम्मिलित वातिन जल को जिसमें कोला नटों का सारसत

न हो, उन पर उद्ग्रहणीय सीमा-शुल्क के उतने अंश से छूट देती है जो मूल्य के पच्चीस प्रतिशत से अधिक है :

परन्तु यह कि यह छूट विनिर्माता द्वारा या उसकी ओर से 1977-78 के पश्चात्पूर्ति किसी वर्ष के दौरान एक या अधिक कारखाने से गृह उपभोग के लिए की गई पचास लाख बोतलों से अनधिक की प्रथम निकासी पर और 4 जुलाई, 1977 को प्रारम्भ तथा 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान सैंतीस लाख बोतलों से अनधिक की निकासियों को लागू होगी ।

[सं० 211/77]

भार० के० चन्द्र, अवर सचिव ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मूद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD,
NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977

